

Beryl Securities Limited

CIN: L67120MP1994PLC008882

REGISTERED OFFICE: 133, Kanchan Bagh Colony Indore - 452001, Madhya Pradesh, India

Tel No. 0731- 2517677/3961510, Website: www.berylsecurities.com, E Mail: berylsecurities@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 12,60,922 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Nine Hundred & Twenty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of Beryl Securities Limited ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulcochana Bajpai (PAC) at an offer price of ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paise Only), with an intension to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulcochana Bajpai (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Beryl Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company")

This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated May 02, 2023 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratahkal (Marathi) (Maharashtra edition) and Hamara Swaraj (Hindi) (Madhya Pradesh Edition) On May 10, 2023; (c) Draft Letter of Offer dated May 17, 2023 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated August 07, 2023 (LOF).

This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paise Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on August 17, 2023 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. Thursday, August 03, 2023 has been completed through registered post on August 11, 2023 and E-mail on August 10, 2023. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) is also available on website of SEBI at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LoF.

The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:

- In case the shares are held in physical form :**  
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 28) of the LoF.
  - In case the shares are held in demat form**  
Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 27) of the LoF.  
Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Adroit Corporate Services Private Limited) at 18-20, Jafarbhoy Industrial Estate, 1<sup>st</sup> Floor, Makawana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai-400059 India. during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 26 of the LoF.
- In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on May 17, 2023. The Final Observations received from SEBI dated August 01, 2023 bearing reference no SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2023/30818/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.

Material updates since the date of the Public Announcement:

- There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement
- As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
  - Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day	Date	Day	Date
Date of Public Announcement	Tuesday	May 2, 2023	Tuesday	May 2, 2023
Date of publishing of Detailed Public Statement	Wednesday	May 10, 2023	Wednesday	May 10, 2023
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday	May 17, 2023	Wednesday	May 17, 2023
Last date for public announcement for competing offer(s)\$	Wednesday	May 31, 2023	Wednesday	May 31, 2023
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer	Wednesday	June 7, 2023	Tuesday	August 01, 2023
Identified Date#	Friday	June 9, 2023	Thursday	August 03, 2023
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Friday	June 16, 2023	Thursday	August 10, 2023
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Thursday	June 22, 2023	Friday	August 18, 2023
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Tuesday	June 20, 2023	Thursday	August 17, 2023
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Tuesday	June 20, 2023	Friday	August 18, 2023
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday	June 23, 2023	Monday	August 21, 2023
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	July 10, 2023	Friday	September 1, 2023
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 24, 2023	Friday	September 15, 2023
Issue of post offer advertisement	Monday	July 17, 2023	Friday	September 8, 2023
Last date for filing of final report with SEBI	Wednesday	July 31, 2023	Monday	September 25, 2023

**#Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer shall be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and Parties to SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.**

- Other Information:**
  - The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
  - A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:



**INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED**  
**Address:** 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, Ellisbridge, Ahmedabad – 380009, Gujarat, India  
**Tel No.:** +079 46019796  
**(M):** +91-9898055647  
**Web Site :** [www.ifinservices.in](http://www.ifinservices.in)  
**Email :** [mdbd@ifinservices.in](mailto:mdbd@ifinservices.in)  
**Contact Person:** Ms. Jaini Jain  
**SEBI Reg No :** INM000012856

FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC:

Sd/-  
Mr. Vineet Bajpai  
(Acquirer No. 1)

Sd/-  
Mr. Agam Gupta  
(Acquirer No. 2)

Sd/-  
Mr. Sanyam Jain  
(Acquirer No. 3)

Sd/-  
Mrs. Rani Sulcochana Bajpai  
(PAC)



## Re-eTENDER NOTICE

Kerala State Poultry Development Corporation Ltd. (KEPCO) invites Re-eTenders under EPC contract basis for executing the following Projects/ Works at Kottukkal in Kollam, Kerala. (A) Setting up of Modern Semi-Automatic Chicken Processing Plant (1000 BPH Capacity). (Tender Id: 2023\_KEPCO\_584769\_2). (B) Setting-up of Dry Rendering Plant (2500L Capacity). (Tender Id: 2023\_KEPCO\_584773\_2). Last date for bid submission: 02.09.2023.

For more details, please login to  
www.kepcpo.co.in / www.kepcponline.blogspot.com  
Sd/- MD, KSPDC

## RANGSUTRA CRAFTS INDIA LIMITED

CIN : U52511RJ2006PLC026497,  
Regd. Off : A-39, Karni Nagar, Lalgarh, Bikaner-334001, Rajasthan  
E-mail : info@rangsutra.com, Website : www.rangsutra.com. Contact No. : +91-8432019901

NOTICE OF 17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

## REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The notice is hereby given that:

- The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Bikaner Zila Udhog Sangh, Near Rishi Sighi Bhawan, Road No 5, Rani Bazar Industrial Area, Bikaner-334001, Rajasthan on Tuesday, 12<sup>th</sup> day of September, 2023 at 02:00 P.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
- Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year ending 31<sup>st</sup> March 2023 have been sent to the members whose email IDs are registered with the Company. The same is also available on the Company's website www.rangsutra.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the other members at their registered address through permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 17<sup>th</sup> August 2023.
- Members holding shares, as on cut-off date of 05<sup>th</sup> day of September 2023, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting of electronic means;

i. The remote e-voting shall commence on 09<sup>th</sup> September 2023 at 09:00 A.M.;

ii. The remote e-voting shall end on 11<sup>th</sup> September 2023 at 05:00 P.M.;

iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 05<sup>th</sup> Sept. 2023;

iv. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 05<sup>th</sup> Sept 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

v. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

vi. The notice of AGM is available on the Company's website www.rangsutra.com and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com

4. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com; or call on toll free no.-1800-22-7990 or contact Mr. Anubhav Saxena (Assistant Manager), National Securities Depository Limited, Trade World, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Lower Panel, Mumbai-400013 at designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or anubhav.saxena@nsdl.co.in or at telephone nos. 022 24943600/ 1800-222-7990 (toll free) who will address the grievances connected with the voting by electronic means. The members may also contact Mr. O.P. Sahu, Regional Head-West at his email id: opsahu@rangsutra.com and contact No. +91-8432019901.

5. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from 05<sup>th</sup> Sept 2023 to 12<sup>th</sup> Sept 2023 (both days inclusive).

Date : 18<sup>th</sup> August 2023  
Place : Bikaner

On behalf of Board of Directors  
For Rangsutra Crafts India Limited

Sd/-  
Sumita Ghose  
Managing Director  
DIN : 01016426

R/o : C-901, Sector-21, Surya Vihar, Industrial Complex,  
Dundahera, Gurgaon-122016

## PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF

## Beryl Securities Limited

CIN: L67120MP1994PLC008882  
REGISTERED OFFICE: 133, Kanchan Bagh Colony Indore - 452001, Madhya Pradesh, India  
Tel No. 0731-2517677/3961510, Website: www.berylsecurities.com, E Mail: berylsecurities@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 12,60,922 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Nine Hundred & Twenty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of Beryl Securities Limited ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulochana Bajpai (PAC) at an offer price of ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paise Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer" on behalf of Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulochana Bajpai (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Beryl Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company")

This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated May 02, 2023, ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratibha (Marathi) (Maharashtra edition) and Hamara Swaraj (Hindi) (Madhya Pradesh Edition) On May 10, 2023; (c) Draft Letter of Offer dated May 17, 2023 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated August 07, 2023 (LOF).

This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paise Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on August 17, 2023 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. Thursday, August 03, 2023 has been completed through registered post on August 11, 2023 and E-mail on August 10, 2023. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) is also available on website of SEBI at (www.sebi.gov.in). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LoF.

The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:

a) In case the shares are held in physical form :  
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 28) of the LoF.

b) In case the shares are held in demat form  
Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 27) of the LoF.

Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Adroit Corporate Services Private Limited) at 18-20, Jafarbhoy Industrial Estate, 1<sup>st</sup> Floor, Makawana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai-400059 India, during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 26 of the LoF.

6. In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on May 17, 2023. The Final Observations received from SEBI dated August 01, 2023 bearing reference no SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/POW/2023/30818/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.

7. Material updates since the date of the Public Announcement:

There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement

8. As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.

9. Revised Schedule of Activity is as follows:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day	Date	Day	Date
Date of Public Announcement	Tuesday	May 2, 2023	Tuesday	May 2, 2023
Date of publishing of Detailed Public Statement	Wednesday	May 10, 2023	Wednesday	May 10, 2023
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday	May 17, 2023	Wednesday	May 17, 2023
Last date for public announcement for competing offer(s)/s	Wednesday	May 31, 2023	Wednesday	May 31, 2023
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer	Wednesday	June 7, 2023	Tuesday	August 01, 2023
Identified Date#	Friday	June 9, 2023	Thursday	August 03, 2023
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Friday	June 16, 2023	Thursday	August 10, 2023
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Thursday	June 22, 2023	Friday	August 18, 2023
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Tuesday	June 20, 2023	Thursday	August 17, 2023
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Tuesday	June 20, 2023	Friday	August 18, 2023
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday	June 23, 2023	Monday	August 21, 2023
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	July 10, 2023	Friday	September 1, 2023
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 24, 2023	Friday	September 15, 2023
Issue of post offer advertisement	Monday	July 17, 2023	Friday	September 8, 2023
Last date for filing of final report with SEBI	Wednesday	July 31, 2023	Monday	September 25, 2023

#Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer shall be sent. All offers (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and Parties to SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

10. Other Information:

- The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
- A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:

INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED  
Address: 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Koliabehn Vyas Marg,  
Ellisbridge, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India

Tel No.: +079 46019796  
(M): +91-9898055647

Web Site : www.ifinservices.in  
Email : mbd@ifinservices.in

Contact Person: Ms. Jaini Jain  
SEBI Reg No. : INM000012856

FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC:

Sd/- Mr. Vineet Bajpai (Acquirer No. 1)

Sd/- Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2)

Sd/- Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3)

Sd/- Mrs. Rani Sulochana Bajpai (PAC)

Place : Indore  
Date : August 18, 2023

## The South Indian Bank Ltd.

CIN: L65191KL1929PLC001017  
Regd. Office: SIB House, T.B Road, Mission Quarters,  
Thiruvallur-680001. Tel: 0487 2420020  
Email: head@siib.co.in, Website: www.southindianbank.com

## NOTICE

Notice is hereby given that the following share certificate issued by the Bank is reported to have been lost or misplaced and request has been received by the Bank to issue a duplicate share certificate thereof. The request will be considered on merits and duplicate certificate issued accordingly unless objections thereto, if any are received within 15 days of the publication hereof.

## DETAILS OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE / LETTER OF CONFIRMATION TO BE ISSUED

S.No	Folio No.	Name of Shareholder	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of shares
------	-----------	---------------------	-----------------	------------------	---------------

1.	146788	Kochukalikkal Samuel Mathunni	39745	104355601 – 104698100	3,42,500
----	--------	-------------------------------	-------	-----------------------	----------

For The South Indian Bank Ltd.  
Sd/-  
(JIMMY MATHEW)  
COMPANY SECRETARY

Place:Thiruvallur  
Date: 17-08-2023

## BLUE HORIZON INVESTMENTS LIMITED

CORPORATE IDENTITY NO. L99995MH1974PLC127031  
Regd. Office : Ballapur Paper Mills, P.O. Ballapur - 442901, Dist. Chandrapur, Maharashtra

## STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Rs. In Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
---------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

1	Total Income from Operations	1.91	1.91	7.65
---	------------------------------	------	------	------

2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.50	0.30	3.38
---	---	------	------	------

3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.50	0.30	3.38
---	--	------	------	------

4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.50	0.30	3.38
---	---	------	------	------

5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	0.50	0.30	(14.52)
---	---	------	------	---------

6	Equity Share Capital	5.01	5.01	5.01
---	----------------------	------	------	------

7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year			281.63
---	---	--	--	--------

8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			-
---	--	--	--	---

Basic:	1.00	0.60	(28.98)
--------	------	------	---------

Diluted:	1.00	0.60	(28.98)
----------	------	------	---------

Notes:

a) The above Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 have been prepared as per Ind AS rules and reviewed and recommended by the Audit committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on August 17, 2023 and the Statutory Auditors of the Company have provided Audit Report for the detailed Audited Financial Results.

b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the stock Exchange(s) and the listed entity. (www.bhil.co.in).

For Blue Horizon Investments Ltd.  
Sd/-  
CFO

Place : Gurugram  
Dated : 17.08.2023

## KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender Notice for the construction of the following works: (1) J.M. (-1) Pandam Thekketara and Thumpamon pps: Construction of 5.5 LL, 6.5 LL, 6.0 LL OHSR/2 WSS to Seethathode Pt - Construction of GLSRs at Aliyannukku, Kottakuzhy and Seethakuzhy, laying CWPMP and road restoration, (3) Kurichy GPs - Demolishing damaged OHSR and Constructing 7.00 LL OHSR, laying Pumping and distribution mains, pump sets, road restoration, (4) JWSS to Mylapra Malayappuzha and Vadasserkkara pps: Design and construction of 6m dia intake well cum pump house Supply of VT pump sets, RWPMP to Maniyar, road restoration. EMD: Rs. 200000, 500000, 200000 Tender fee: Rs. 13010, 19518, 13010 Last Date for submitting Tender: 11-09-2023 02:00 pm Phone: 04692500162 Website: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.in

Superintending Engineer  
PH Circle  
Pathanamthitta

KWA-JB-GL-6-1053-2024

## KLM AXIVA FINVEST LIMITED

Regd. Office: Plot No.39, Door No.8-13, 1<sup>st</sup> Floor,  
Ashoka Complex, Mythripuram Colony, Gayathri Nagar X Road,  
Vaishalynagar P.O. Hyderabad, Rangareddi, Telangana- 500079

Telephone No: +91-484-4281118

Website: https://www.klimaxiva.com/ Email: secretarial@klimaxiva.com

Corporate Identity Number: U65910TG1997PLC026983

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

The members of KLM AXIVA FINVEST LIMITED ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 and 108 of the Companies Act 2013 ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2020 dated December 8, 2021, 03/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("the MCA Circulars") and other applicable provisions of the Act, Rules, Circulars, Notifications issued there under as amended, the Company has on August 17, 2023 has sent Postal Ballot notice through electronic mode to all members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent namely KFin Technologies Limited or with the respective Depository Participants ("Depository") as appears on close of Friday, August 11, 2023. The Postal Ballot notice is sent for seeking approval of the shareholders by e-voting for the Alteration of the Main Objects Clause of the Memorandum of Association of the Company.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through electronic mode shall commence from Friday, August 18, 2023 at 9.00 A.M. (IST) to Sunday, September 17, 2023 at 5.00 P.M. (IST) both days inclusive. The e-voting shall not be allowed after the said time and date.

The Board has appointed CS Nikhil George Pinto (Membership No.: FCS 11074, CP: 16059) Partner, M/s. Caesar Pinto John & Associates LLP, Company Secretaries, Kochi as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through e-voting process in a fair and transparent manner. Members whose name appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, August 11, 2023 (cut off date) will be considered for the purpose of voting. A person who is not a member as on the cut off date shall treat this notice for information purpose only.

Shareholders may please note that the Postal Ballot Notice will be available on the Company's website at www.klimaxiva.com/stakeholders, website of the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Shareholders holding shares in physical form, are requested to send a scanned copy of the signed request letter mentioning the Folio Number, Name of the shareholder, complete address, mobile number, email address to be registered along with self-attested copy of PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAAR) supporting the registered address of the Shareholder, by email to the Company at secretarial@klimaxiva.com. Shareholders holding shares in demat form are requested to update their email address through their respective Depository Participant(s). After successful registration of the e-mail address, a copy of this Postal Ballot notice along with the remote e-voting user ID and password will be sent to the registered email address, upon request received from the Shareholders. The Result of the Postal Ballot shall be declared by the Whole-time Director or any other person authorized by him on or before Wednesday, September 20, 2023 at 3.00 P.M. at the Corporate office of the Company and communicated on the same day to the stock exchange where securities of the Company are listed and will be hosted along with the Scrutinizer's report on the website of the Company and CDSL. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33 or request to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager at helpdesk.evoting@cdsindia.com

By the Order of Board  
For KLM AXIVA FINVEST LIMITED

Sd/-  
Shibu Theckumpurath Varghese  
Whole time Director  
DIN: 02079917

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023

Place : Emakulam  
Date : 17-08-2023



# कोलकाता

	मौसम	
	<b>तापमान</b>	<b>कोलकाता</b>
	अधिकतम–32.0	सूर्योदय– 05:14
	न्यूनतम– 27.0	सूर्यास्त– 06:06
	जनसत्ता	<b>18 अगस्त, 2023</b>

छात्र की मौत के मामले में औपचारिकता पूरी करने वाली रपट प्रस्तुत करने पर

# जादवपुर विश्वविद्यालय को ‘यूजीसी’ ने फटकार लगाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कथित रैगिंग एवं यौन उत्पीड़न के मद्देनजर एक छात्र की मृत्यु होने के मामले में ‘औपचारिकता पूरी करने वाली रपट’ प्रस्तुत करने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय को फटकार लगाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

आयोग ने हाल में हुई छात्र की मौत पर विश्वविद्यालय से कहा कि उसने रैगिंग रोकने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया और वह रपट से संतुष्ट नहीं है। यूजीसी ने पिछले सप्ताह छात्रावास की दूसरी मंजिल के छज्जे से नीचे गिरकर 17 वर्षीय एक छात्र की मृत्यु के मामले में तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई के बारे में रपट मांगी थी।

सूत्रों ने कहा कि पेश की गई रपट का अध्ययन किया गया और पाया गया कि यह महज औपचारिकता पूरी करने वाली रपट है और मूलतः इसमें रैगिंग की बुराई पर लगाम लगाने की दिशा में सक्रियता से कदम उठाने की बजाए अधिकांशतः प्रतिक्रियात्मक पहल का उल्लेख है। यूजीसी ने उसकी ओर से पूछे गए 12 प्रश्नों पर अनुपालन रपट मांगी है और साथ ही 24 घंटे के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य भी मांगा है। इस बीच, कथित रैगिंग और यौन

## जांच समिति गठित

कोलकाता, 17 अगस्त (भाषा)।

पश्चिम बंगाल सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र की मृत्यु के मामले में प्रशासनिक खामियों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया है।

छात्रावास के छज्जे से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई थी और ऐसा आरोप है कि छात्र की उसके वरिष्ठ छात्रों ने रैगिंग की थी और यौन उत्पीड़न किया था। समिति को दो सप्ताह में अपनी रपट सौंपने को कहा गया है। समिति के सदस्यों में पश्चिम बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष (अकादमिक), परिषद के सदस्य सचिव, सार्वजनिक अनुदेश निदेशक और उच्च शिक्षा विभाग के विशेष आयुक्त शामिल हैं।

उत्पीड़न मामले में जादवपुर विश्वविद्यालय के छह पूर्व एवं वर्तमान छात्रों को गिरफ्तार किया गया है । इन्हें कोलकाता की अदालत ने 28 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य सरकार ने इस घटना में प्रशासनिक खामियों की जांच

## विवि परिसर में रात्रि प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

कोलकाता, 17 अगस्त (भाषा)।

जादवपुर विश्वविद्यालय ने रात्रि में परिसर में प्रवेश करने के वास्ते आगंतुकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया और द्वारों समेत महत्त्वपूर्ण स्थानों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी लगाने का गुरुवार को फैसला किया। छात्रावास के छज्जे से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई थी और ऐसा आरोप है कि छात्र की उसके वरिष्ठ छात्रों ने रैगिंग की थी और यौन उत्पीड़न किया था।

छात्र की मौत के एक सप्ताह बाद परिसर क्षेत्र में बाहरी लोगों के अनुचित व्यवहार में शामिल होने के आरोपों के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं।

के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। अधिकारियों के अनुसार, समिति को दो सप्ताह में रपट पेश करने को कहा है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की मीडिया पोस्ट पर सज़ान लिया है जिसमें फोटोग्राफ भी शामिल हैं।

# तृणमूल ने किया 18 जिला परिषदों का गठन, 14 में महिला सभाधिपति

कोलकाता, 17 अगस्त (जनसत्ता)।

राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने 18 जिला परिषद का गठन किया है, इसमें 14 जिला परिषद की सभाधिपति महिलाएँ हैं। इसमें दक्षिण बंगाल की 12 जिला परिषद में आठ और उत्तर बंगाल की छह में सभी महिला सभाधिपति बनाई गई हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के गड़गड़े माने जाने वाले पूर्व मेदिनीपुर में भाजपा का सफाया हो गया है। खेजुरी इलाके से सभाधिपति और नंदीग्राम से सह यत्नमूल के साथ तृणमूल कांग्रेस ने जिला परिषद का गठन

किया है। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले राजनीति में 50 फीसद महिलाओं के हाथों सत्ता सौंप कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। मालूम हो कि राज्य में 20 जिला परिषद का गठन हुआ है। लेकिन 3317 ग्राम पंचायतों में 3204 में बोर्ड का गठन हुआ है। पंचायत समिति में 341 में 304 में बोर्ड गठन हुआ है। राज्य प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में जहां विशेष कारण से बोर्ड गठन का कार्य स्थगित रखा गया है, वहां जल्द ही यह काम शुरू होगा। बुधवार को बोर्ड गठन का अंतिम दिन था।

# मकान ढहने से महिला की मौत, दो घायल

कोलकाता, 17 अगस्त (जनसत्ता)।

महानगर कोलकाता में एक बार फिर पुरानी इमारत ढहने की घटना हुई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक नाबालिग समेत दो लोग घायल हो गए। घायलों को कोलकाता मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती किया गया है।

जोराबागान थाना इलाके के पथुरियाघाटा स्थित आवास में जर्जर चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से वहां गुरुवार सुबह अफरातफर की स्थिति बन गई। सूत्रों के अनुसार, हादसा बुधवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। जर्जर इमारत के चौथी मंजिल का हिस्सा तीसरी मंजिल पर गिर गया, जिसमें एक परिवार किराए पर रहता था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे में एक किशोर भी घायल हो गया। खतरे वाली इमारत के अन्य निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

## नगर निगम ने तोड़े 480 अवैध निर्माण

कोलकाता, 17 अगस्त (जनसत्ता)।

कोलकाता नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण तोड़ने का काम लगातार जारी है। बीते डेढ़ साल के दौरान इस काम में तेजी आई है। कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बीते एक साल के दौरान कुल मिलाकर 480 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं।

बुधवार को कोलकाता नगर निगम की बिल्डिंग विभाग में समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें महापौर फिरहाद हाकिम को इस बारे में जानकारी दी गई कि एक साल के दौरान 480 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं।

## नियुक्तियां



**राइट्स लिमिटेड**  
इंजनियरिंग्स एंड कंसल्टिंग



(भारत सरकार का उपक्रम)

शिखर, प्लॉट सं. 1, सेक्टर-29, पटियाला-122001

निम्नलिखित पद(पदों)/विधा(ओं) में योग्य प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है:

वीसी सं.	पद	रिक्तियाँ की संख्या
272/23	परियोजना वास्तुकार	01
273/23	अनुबंध विशेषज्ञ	01

पद, वेतनमान, योग्यता, आयु, तिथि और स्थान, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में विवरण के लिए, उम्मीदवार करियर सेक्शन के तहत राइट्स की वेबसाइट **www.rites.com** पर पोस्ट किया गया विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं।

<div> <b>राइट्स लिमिटेड</b></div> <div><small>(भारत सरकार का उपक्रम)</small></div>	
<b>49वीं वार्षिक आजी बैठक के लिए शेयरधारकों को सूचना</b>	
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राइट्स लिमिटेड के सदस्यों की 49वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 15 सितंबर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘वीसी’) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (‘ओवीएएम’) के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों जिन्हें अलग से परिचालित किया जा रहा है, को निष्पादित करने के लिए किया जाएगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021, दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021, दिनांक 5 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिनांक 5 जनवरी, 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एक्सओ/सीआरडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 और दिनांक 13 मई, 2022 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एक्सओ/डीडीएयरए/पी/सीआईआर/2022/0063 तथा दिनांक 15 जनवरी, 2022 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एक्सओ/सीएफडी/सीएनडी2/सीआईआर/पी/2021/11 (सुमहर्षक रूप से परिपत्रों के रूप में संदर्भित), ने कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौलिक उपस्थिति के बिना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।	
बितीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ उपरोक्त एक्सप्रेस परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <b>www.rites.com</b> और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः <b>www.bseindia.com</b> और <b>www.nseindia.com</b> पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य <b>केवल वीसी/ओवीएएम सुविधा के माध्यम से</b> एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम से क्रमिलित होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।	
कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ( <b>‘रिमोट ई-वोटिंग’</b> ) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम (ई-वोटिंग) के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। यदि आपको ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। यदि आपने कंपनी/आरटीए के साथ अपना ईमेल पता के साथ पंजीकृत नहीं किया है और/वा लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाता नंबर अपडेट नहीं किया है, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:	
क) ई-वोटिंग के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें। ( <b>08 सितंबर, 2023 को शाम 5 बजे (भा.मा.स.) से पहले</b> )	
ख) <b>https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html</b> पर जाएं;	
ग) कंपनी का नाम अर्थात् राइट्स लिमिटेड चयनित करें;	
घ) डीपी आईडी और स्टाइड आईडी/फिजिकल फोलियो नंबर और पैन नंबर दर्ज करें। रिमोट पर फिजिकल फोलियो में पैन विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सदस्यों को शेयर प्रमाणपत्रों में से एक की संख्या दर्ज करनी होगी;	
ङ) प्रमाणिक के लिए पैन कार्ड की स्वतः प्रमाणित प्रति अपलोड करें। यदि सिस्टम में पैन विवरण उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम से सदस्य के अद्यतनित प्रमाण के लिए पैन कार्ड की स्वतः प्रमाणित प्रति अपलोड करने का निर्देश प्राप्त होगा;	
च) अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें;	
छ) इसके उपरान्त सिस्टम एजीएम नोटिस प्राप्त करने के लिए ईमेल पते की पुष्टि करेगा।	
ज) नेशनल ऑटोमैटेड विलरिंग हाउस (एनएसीएच) या किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करना। ( <b>08 सितंबर, 2023 को शाम 5 बजे (भा.मा.स.) से पहले</b> )	
फिजिकल होल्डिंग	क) <b>https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html</b> पर जाएं, ख) ‘अपडेट बैंक विवरण’ के अंतर्गत, निम्नलिखित विवरण भरें: <p>1) बैंक खाता संख्या</p> <p>2) बैंक का नाम</p> <p>3) आईएफएससी कोड</p> <p>ग) पैन कार्ड की स्वतः प्रमाणित स्कैन प्रति अपलोड करें;</p> <p>घ) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट) की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति अपलोड करें;</p> <p>ङ) यदि शेयर संयुक्त रूप में हैं तो सदस्य या प्रथम धारक के नाम वाले रक दिए गए चेक की स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति अपलोड करें।</p>
<b>डीमैट होल्डिंग</b>	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-वैलेट मैनेट को अपडेट करें। वैकल्पिक रूप से, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ अपना ईमेल पता और ई-पैमेंट ईमेल अपडेट कर सकते हैं और यदि सदस्यों के पास मौलिक रूप में शेयर हैं तो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास अपडेट कर सकते हैं। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगी और निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से कंपनी द्वारा चोट पर कर कटौती करना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों को देखें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए (फिजिकल रूप में धारित शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें।
	पैन के साथ एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वह vinay.kumar@linkintime.co.in पर 08 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे भा.मा.स. तक ईमेल द्वारा चोट पर कर की कटौती नहीं करने का लाम प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 145जी/15एच में एक वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20% की उच्च दर से काटा जाएगा। बैंक खातों का पंजीकरण न होने के कारण यदि कंपनी किसी शेयरधारक को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे शेयरधारकों को लाभांश का वारंट/चेक यथाशीघ्र भेज देगी।
	कृते राइट्स लिमिटेड हस्ता./- जोशित रंजन सिकिंदर कंपनी सचिव
स्थान: गुरुग्राम दिनांक: 17.08.2023	
पंजीकृत कार्यालय: स्कॉप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092 वेबसाइट: <b>www.rites.com</b> ई-मेल: <b>cs@rites.com</b> , फ़ोन: <b>0124-2571656</b>	

## PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF Beryl Securities Limited

CIN: L67120MP1994PLC008892

REGISTERED OFFICE: 133, Kanchan Bagh Colony Indore - 452001, Madhya Pradesh, India

Tel No. 0731- 2517677/3961510, Website: www.berylsecurities.com, E Mail: berylsecurities@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 12,60,922 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Nine Hundred & Twenty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of Beryl Securities Limited ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulcochana Bajpai (PAC) at an offer price of ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paisa Only), with an intention to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulcochana Bajpai (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Beryl Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company").

This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated May 02, 2023 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratahak (Marathi) (Maharashtra edition) and Hamara Swaraj (Hindi) (Madhya Pradesh Edition) On May 10, 2023; (c) Draft Letter of Offer dated May 17, 2023 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated August 07, 2023 (LOF).

This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

1. The Offer Price is being ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paisa Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.

2. The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on August 17, 2023 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

3. The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

4. The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. Thursday, August 03, 2023 has been completed through registered post on August 11, 2023 and E-mail on August 10, 2023. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders on as such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.

5. Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) is also available on website of SEBI at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LoF.

The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:

a) In case the shares are held in physical form :  
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 28) of the LoF.

b) In case the shares are held in demat form  
Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 27) of the LoF.  
Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Adroit Corporate Services Private Limited) at 18-20, Jafarbhoy Industrial Estate, 1<sup>st</sup> Floor, Makawana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai-400059 India. during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 26 of the LoF.

6. In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on May 17, 2023. The Final Observations received from SEBI dated August 01, 2023 bearing reference no SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/IP/OW/2023/30818/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.

7. Material updates since the date of the Public Announcement:  
There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement

8. As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.

9. Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day	Date	Day	Date
Date of Public Announcement	Tuesday	May 2, 2023	Tuesday	May 2, 2023
Date of publishing of Detailed Public Statement	Wednesday	May 10, 2023	Wednesday	May 10, 2023
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday	May 17, 2023	Wednesday	May 17, 2023
Last date for public announcement for competing offer(s)\$	Wednesday	May 31, 2023	Wednesday	May 31, 2023
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer	Wednesday	June 7, 2023	Tuesday	August 01, 2023
Identified Date#	Friday	June 9, 2023	Thursday	August 03, 2023
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Friday	June 16, 2023	Thursday	August 10, 2023
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Thursday	June 22, 2023	Friday	August 18, 2023
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Tuesday	June 20, 2023	Thursday	August 17, 2023
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Tuesday	June 20, 2023	Friday	August 18, 2023
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday	June 23, 2023	Monday	August 21, 2023
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	July 10, 2023	Friday	September 1, 2023
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 24, 2023	Friday	September 15, 2023
Issue of post offer advertisement	Monday	July 17, 2023	Friday	September 8, 2023
Last date for filing of final report with SEBI	Wednesday	July 31, 2023	Monday	September 25, 2023

#Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer shall be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and Parties to SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

10. Other Information:

The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.

A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:

INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, Ellisbridge, Ahmedabad – 380009, Gujarat, India

Tel No.:+079 46019796

(M): +91-9898055647

Web Site : [www.ifsfinvestments.in](http://www.ifsfinvestments.in)

Email : [mbd@ifsfinvestments.in](mailto:mbd@ifsfinvestments.in)

Contact Person: Ms. Jaini Jain

SEBI Reg No : INM000012856

FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC:

Sd/-  
Mr. Vineet Bajpai  
(Acquirer No. 1)

Sd/-  
Mr. Agam Gupta  
(Acquirer No. 2)

Sd/-  
Mr. Sanyam Jain  
(Acquirer No. 3)

Sd/-  
Mrs. Rani Sulcochana Bajpai  
(PAC)

Place : Indore

Date : August 18, 2023

*#Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer shall be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and Parties to SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.*

**10. Other Information:**

- The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
- A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

**ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:**

**INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED**  
**Address:** 612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, Ellisbridge, Ahmedabad – 380009, Gujarat, India  
**Tel No.:** +079 46019796  
**(M):** +91-9898055647  
**Web Site:** [www.ifinservices.in](http://www.ifinservices.in)  
**Email :** [mdb@ifinservices.in](mailto:mdb@ifinservices.in)  
**Contact Person:** Ms. Jaini Jain  
**SEBI Reg No.** : INM000012856

**FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC:**

**Sd/-**  
**Mr. Vineet Bajpai**  
**(Acquirer No. 1)**

**Sd/-**  
**Mr. Agam Gupta**  
**(Acquirer No. 2)**

**Sd/-**  
**Mr. Sanyam Jain**  
**(Acquirer No. 3)**

**Sd/-**  
**Mrs. Rani Sulcochana Bajpai**  
**(PAC)**

**Place :** Indore  
**Date :** August 18, 2023





# इर्शाळवाडी दुर्घटनेत तत्पर मदतकार्याची शासनामार्फत दखल घेत नवी मुंबई महानगरपालिकेस सन्मानपत्र

## मदतकार्य पथकातील नमुंमपा अधिकारी, कर्मचारी यांचा स्वातंत्र्यदिनी विशेष सन्मान

नवी मुंबई, दि. १७ (प्रतिनिधी) : इर्शाळवाडी येथील भूस्खलन दुर्घटनेत नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नावेंकर यांच्या निर्देशानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेची अग्निशमन, आरोग्य, स्वच्छता व आपत्ती निवारण पथके मदतकार्यासाठी मध्यरात्रीच घटनास्थळी रवाना झाली.

या तत्पर मदतकार्य करणाऱ्या पथकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नावेंकर यांच्या शुभहस्ते, महापालिका मुख्यालयातील विशेष समारंभात सन्मानित करण्यात आले.


सदर सन्मानापूर्वी दुर्घटनास्थळी दुर्गम भागात मदतकार्य करण्यासाठी जात असताना आकस्मिक निधन झालेले नमुंमपा अग्निशमन विभागाचे सहाय्यक केंद्र अधिकारी शिवराम हुमणे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच आपत्ती प्रसंगात धाडसाने मदतकार्य करणारे अग्निशमन अधिकारी श्री. पुरुषोत्तम जाधव व अग्निशमन विभागाचे सहकारी पथक, आपत्ती मदतकार्य व घनकचरा व्यवस्थापन समुहाचे प्रमुख प्रतिनिधी सहा. आयुक्त श्री. शशिकांत तांडेल आणि सहकारी पथक तसेच डॉ. सोनल बन्सल व समूह यांचे आरोग्य पथक या पथकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सन्मान करण्यात आला.

सतत ४ दिवस चाललेल्या या मदतकार्यात एनडीआरएफच्या जवानांसोबत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मदतकार्य पथकांनीही दररोज सक्रिय सहभाग घेतला तसेच रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणा-या सूचनांनुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आवश्यक ते साहित्य आपद्ग्रस्तांसाठी उपलब्ध



करून देण्यात आले. नवी मुंबईतीलच नव्हे तर इतर गाव – शहरातील आपत्ती प्रसंगात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी नेहमीच मदतकार्य करण्यात पुढाकार घेतलेला आहे.

ही परंपरा कायम राखत इर्शाळवाडी दुर्घटनेतही नवी मुंबई महानगरपालिका पथकांनी चांगली कामगिरी केली. याचा अभिमान वाटत असल्याचे नमूद करीत महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नावेंकर यांनी या पथकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सन्मान केला. पथकात सहभागी सर्वेच अधिकारी, कर्मचारी यांस लवकरच प्रशस्तीपत्रे प्रदान करून त्यांचा कामगिरीचा गौरव करण्यात येईल असेही आयुक्तांनी सांगितले.



नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तत्पर मदतकार्य सेवेबद्दल रायगड जिल्ह्यामार्फत

## पत्रकार संरक्षण कायद्याची महाराष्ट्रभर होळी मुंबईत एस.एम देशमुख यांच्यासह ५० पत्रकारांना अटक

आमदार किशोर पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी

मुंबई, दि. १७ (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा असतानाही त्याची कोटरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने पत्रकारांवरील हल्ले पुन्हा वाढले आहेत.. त्यामुळे सर्वांथीने कुचकामी ठरलेल्या या कायद्याची आज राज्यभर होळी करण्यात आली.. मुंबईत हुतात्मा चौकात कायद्याची होळी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एस.एम.देशमुख यांच्यासह पन्नासहून अधिक पत्रकारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.. राज्यात आंदोलन शांततेत पार पडले.. मुंबईत मुंबई मराठी पत्रकार संघाजवळ पत्रकार संरक्षण कायद्याची होळी करण्यात आली..

महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने पत्रकारांवरील हल्ल्यांची संख्या चिंता वाटायी एवढी वाढली आहे.. राज्यात चार वर्षात २२५ पत्रकारांवर हल्ले झाले असले तरी केवळ ३७ प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम लावले गेले.. चार वर्षात या कायद्यान्वये एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही.. त्यामुळे कायद्याचा धाक उरला नसल्याने पत्रकारांवरील हल्ल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.. पाचोऱ्यात स्थानिक आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकारास षडिगाळ केली आणि नंतर आपल्या गुंडाकरवी पत्रकारावर हल्ला चढविला.. ही चित्रफीत महाराष्ट्राने पाहिली ’असतानाही आमदारांवर किंवा त्यांच्या हल्लेखोर गुंडांवर देखील पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम लावले गेले नाही .. असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र घडत असल्याने पत्रकारांवरील हल्ले पुन्हा वाढले आहेत.. हा कायदाच कुचकामी ठरला असल्याने या कायद्याची आज महाराष्ट्रभर होळी करण्यात आली... दुपारपर्यंत मुंबईसह राज्यातील धुळे, अहमदनगर, बीड, नाशिक, बुलढाणा, सातारा, रत्नागिरी, औरंगाबाद, नांदेड, पालघर, रायगड, सोलापूर, ठाणे, पुणे, हिंगोली परभणी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, वाशिम, लातूर,कोल्हापूर अकोला, सांगली यवतमाळ, वर्धा, नागपूर आदी जिल्ह्यात व राज्यभरातील २५० तालुक्यात आंदोलन झाली आहेत. राज्यातील तेरा प्रमुख पत्रकार संघटनांनी केलेल्या या आंदोलनानंतर तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात पत्रकार संरक्षण कायद्याची कोटरपणे अंमलबजावणी व्हावी, पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविले जावेत आणि पाचोऱ्यांचे आमदार किशोर पाटील यांच्या विरोधात पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..

मुंबईत पत्रकारांना अटक मुंबईत हुतात्मा चौकात आंदोलन करणार्या एस.एम देशमुख, किरण नाईक, शरद पाबळे, दीपक कैतके, राजा आदाटे, नरेंद्र बाबळे, संदीप चव्हाण, दीपक पवार, राजन पारकर, विनायक सापग, विशाल परदेशी यांच्यासह पन्नासहून अधिक पत्रकारांना आज पोलिसांनी ताब्यात घेऊन तसे त्यांची सोडका केली.. तत्पुर्वी एस.एम.देशमुख, संदीप चव्हाण, शरद पाबळे यांनी हुतात्म्यांना पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले.

### पलावा जंक्शनकराचा वाहतूक कोडीतून वाहनचालकांची होणार मुक्तता

कल्याण, दि. १७ (वार्ताहर) : कल्याण शीळ महामार्गावरील पलावा ते काटई उड्डाणपुलाची एक मार्गिका डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरू केली जाणार असल्याची माहिती कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत त्यांनी या उड्डाणपुलाच्या कामाचा आढावा घेतला. या उड्डाणपुलाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. कल्याण शीळ महामार्गा हा कल्याण, डोंबिवली आणि त्यापुढील शहरांना ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबईशी जोडत असल्याने अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. या मार्गावर २४ तास वाहनांची मोठी वर्दळ असते. मात्र पलावा जंक्शनवरील वाहतूक कोडीमुळे या महामार्गावर मोठी वाहतूक कोडी होत होती.

#### जाणार सूचना

सूचना देण्यात येते की, मूळ आवडी श्री. श्रीपाल चर्मा नाथप्रसाद चर्मा हे कोअर हाऊस क्र. सी-१४ मोजगाफािट ३० चौ. मीटर बिल्ट अप क्षेत्रफळ, गोरगड (२) जबलपि को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट क्र. २१०, आरएससी-३६, गोरगड-२, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०१६ येथील मालमनेचे आवडी आहेत व आवडेत पत्र क्र. डब्ल्यूसीपी/०११ व ०१२/३५५/९२ व दि. २१.०५.१९९२ अंतर्गत आवडीत केले होते व श्री. श्रीपाल चर्मा नाथप्रसाद चर्मा यांनी सदर कोअर हाऊस श्री. तुकाराम व्ही. फगसे यांना कारर दि. ३१.०३.१९९९ रोजी विक्री केला होता व त्यानंतर श्री. तुकाराम व्ही. फगसे यांनी सदर कोअर हाऊस श्री. इरवणकण्वा जी. शर्मा यांनी सदर कारर दि. ०५.११.२००७ रोजी नोंदणीकरण दस्तावेज क्र. बीडीआर-२१-०२३४८-२००७ दि. १६.११.२००७ अंतर्गत विक्री केला व श्री. इरवणकण्वा जी. शर्मा यांनी म्हाडा कडे अर्ज केला व सदर कोअर हाऊस क्र. सी-१४ चे हस्तांतरण / रेग्युलराईज्ड केले व त्यांच्या नावे प्रदान हस्तांतरण मूल्य रु. १५,०००/- प्रदान पावती क्र. ३२६२३१ दि. २६.११.२००७ अंतर्गत म्हाडा कडे प्रदान केले व म्हाडाचे सदर पत्र संपूर्ण व अंतिम जमिन व बांधकाम मूल्य संबंधात भाडेकरार व एन. ए. कर जुलै, २००८ सह प्रदान केले व मागचे प्रदान पावती रु. १५,८५५/- दि. ०३.१२.२००७ अंतर्गत प्रदान केले व प्रदान पावती क्र. ३२६३९३ दि. ०५.१२.२००७ चे प्रदान रु. २,७१४/- अंतर्गत व म्हाडा द्वारे सदर कोअर हाऊस चे हस्तांतरण / रेग्युलराईज्ड त्यांच्या नावे केले व त्यांचे हस्तांतरण पत्र क्र. ९६८४ दि. ११.११.२००७ अंतर्गत जारी करून सदर वरील मूळ मागणी पत्र, हस्तांतरण मूल्य प्रदान पावती क्र. ३२६२३१ दि. २६.११.२००७ चे रु. १५,०००/- चे प्रदान पावती क्र. ३२६३९३ दि. ०५.१२.२००७ अंतर्गत रु. २,७१४/- करिता व हस्तांतरण पत्र क्र. ९६८४ दि. ११.११.२००७ अंतर्गत कारर केले ते कारर माझे अशील श्री. ईश्वरकण्वाजी जी. शर्मा यांच्याबद्दल ग्राह्य/ हाव्यो आहेत व सदर मुंबई उपनगरी, बोरिवली पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे अंतिमालन प्रदान क्र. ७०१४३-२०२३ दि. १७.०८.२०२३ अंतर्गत दाखल केली व त्यानुसार माझे अशील हे सदर कोअर हाऊसचे परिपूर्ण व कार्यदेशीत मालक असून प्रस्तावित छारेदीदार यांना विक्री करण्यास इच्छुक आहेत. कोणतीही व्यक्तीचा वा व्यक्तींचा सर वरील आवडेंत पत्र संबंधात कोणतेही दावे वा दावे असल्यास तसेच सदर आवडेंत पत्र, पावती, संबंधित व कागदपत्रे वारस यांच्यावर वरील सदर कोअर हाऊस व कोणतेही संबंधित दस्तावेज व/ वा जगा वा कोणत्याही भाग्यदेशास संबंधात जर कोणतेही दावे वा दावे वा कार्यदेशी वारसाह्म दावे असल्यास त्यांचे कोणतेही अधिकार, हक्क वा हिसाबेच, गणण, अडथळे, मागेकर, पारणाधिकार, प्रभार वा अन्य काही असल्यास त्यांनी याद्वारे सदर लेखी स्वरूपात दस्तावेज पुरावे यांच्यासह श्री. अजुज विनोद मोरे यांना, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय, त्यांचे कार्यालय येथे मोे असोसिएट्स यांच्या नावे पत्ता ८५/डी-४, गोरगड (१) विश्राम सौपापास लि., आरएससी-२, गोरगड -२, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०११ येथे सदर दाखोष्टास १४ दिवसांच्या कालावधीच्या आत सूचित करावे अन्यथा, सदर दावे वा दावे, काही असल्यास ते अधिव्यापीत व परिव्यापीत मानले जातील.

सती/-  
अजुज विनोद मोरे  
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

**आगम कॅपिटल लिमिटेड**  
**संलग्नपत्र : L65990MH1991PCLC064631**  
**नोंदणीकृत कार्यालय :** जगा क्र. २, १ ला मजला, रीमिन्सला हाउस, ७ होमजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.  
**दूर. क्र.:** +९१-८८०००८८१११, वेबसाईट : [agamcld@gmail.com](mailto:agamcld@gmail.com)  
**ईमेल :** [www.agamcapital.com](mailto:www.agamcapital.com)

#### सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीचा सभासदांनी ३१ ची वार्षिक संस्थापका सभा (एजीएम) कंपनी कायदा, २०१३ (अंश) च्या सर्व लागू तरतुब सभासदां नोंदून सीक्युरिटीज रिगिस्ट्रॅड चॅंमगद्वारे प्रत्येक निवडीअने कोर्पोरेशन (कमी)/अन ऑफिश ऑडिग्यू अंतर्गत सभासदां (ओपीएम) मार्फत निवडित. दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सर. १५.०० वा. आयोजित केली आहे व सीक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सीई अडिग्यू) व फिनान्स मॉनिगिंग ऑथोरिटी (फिमॉ) नियमन, २०१५ च्या विनय अंतर्गत जारी सामान्य सूचना क्र. दि. ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ५ मे, २०२० अडुक्ने व दि. १३ जानेवारी, २०२२, १३ डिसेंबर, २०२१, १४ डिसेंबर, २०२१ व ५ मे, २०२२ (एकत्रितपणे एमसी सीक्युरिटीज मॉड्युल संदर्भित) यांचे संदर्भात यांच्याद्वारे जारी सीक्युरिटीज अडुक्ने व अन एम ग्राह्य तरतुब यांच्यासह कॉर्पोरेट अँडअर्थ बाँदे मॉड्युल व सीक्युरिटी क्र. सेसी/एकजी/सीक्युरिटी/सीआयआर/पी/१०२७/७९ दि. १२ मे, २०२०, सेसी/एकजी/सीआयआर/पी/सीएचडी२/सीआयआर/पी/१०२३/११ दि. १५ जानेवारी, २०२१ व सेसी/एकजी/सीक्युरिटी/सीएचडी२/सीआयआर/पी/१०२३/१२ दि. १५ जानेवारी, २०२१ सीक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेसी सेक्युरिटी) द्वारे जारी व सदर एजीएम सूचनेमये पत्र पडलेल्या व्यवसायावर विचार विनिमय करणाऱ्यातील एजीएम एमएअर द्वारे तीन दिवस सामान्य विस्तार मंजूर केली आहे.

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवालाची सूचना व संबंधित सर्वसुलूस सहावजन अनुत्तलन वित्तीय अहवालासार, संयोजक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षा अहवाल व अन्य आवश्यक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिकी प्रसन्न सर्व सभासद वार्षिक कंपनी वा इग्राइडरी पॉर्टफोलियम यांच्यासह नोंदणीकृत फिमो आयवर्डिर दि. ०३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी प्रत्यक्ष स्वरुपात वा डिजिटललाईज्ड स्वरुपाचा कागद शेअर्सना कंपनीचा सभासदांना पाठविल्याआ आली आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट अर्थात [www.agamcapital.com](http://www.agamcapital.com) वर उपलब्ध आहे व स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर उपलब्ध आहे.

कंपनी (व्यवसायक व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहावजन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अनुत्तलन व सुधारित वेबवेटबो सेबी (प्राप्त ऑनलाइन) व फिमोने आवश्यक विनियमन) विनियमन २०१५ अंतर्गत सभासदांना सीडीएसएल द्वारे प्रदानित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-मतदान) चा वापर करून एजीएमची सूचनेमये सर्व दाखोष्टां पत्र पाडण्यास इतरांतील सुविधा प्रदान केली आहे. वरील डिजिटल तरतुब व एमएअर सर्वसुलूस यांच्या अनुत्तलन टाबाली मतदान सूचनेची निर्मासित तरीखा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली मार्फत ३१ च्या एजीएमच्या सूचनेमये पत्र पडलेल्या ठावामाई ई-मतदानातील लॉगिन डेटाईडअस पात्र सूचना/ वार्षिक अहवाल प्राप्त करण्याकरिता सदर सूचनेमये पत्र पडलेल्या ठावामाई ई-मतदानातील लॉगिन डेटाईडअस प्राप्त करण्याकरिता नोंदणीकरण करावे. जर कोणतेही मतदान भागधारा यांच्याद्वारे ई-मतदान मार्फत वरील/ ओप्लीएम सुविधांच्या मतदान सभेमध्ये उपस्थित नव्हते ते त्यांचे मतदान सभेमध्ये उपस्थित भागधारक यांना सच्या डिग्रीची ई-मतदानाच्या सुविधेकरिता अर्थव मानले जातील.

एखाद्या व्यक्ती कंपनीचा सभासद असले त्याने कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली सूचना पाठविले व निर्मासित तरीखा दि. ०२ सप्टेंबर, २०२३ अनुसार शेअर्स धारक असल्यास ३१ च्या एजीएमच्या सूचनेमये विलि अटी मार्फत लॉगिन आयडी/दुसरा आयडी व पासवर्ड प्रक्रिया सक्षम करता येईल.

वरील/ ओप्लीएम मार्फत एजीएममध्ये जोडले जाण्याकरिता तयारील पोखर ई-मतदान/ई-मतदान मार्फत सदर मार्फत एजीएमच्या सूचनेमये प्रदानित एजीएम पहावी. सभासदांनी कृपया काळजी घ्यावी.

जर वैयक्तिक भागधारक /सभासद हे प्रतिभूती धाक असतील तर डिजिटिडी अर्बान एक्स्पर्टसीडीया/सीडीएसएल मार्फत लॉगिन करविले व संबंधित हेलपडेक वर संर्षक साधवा:

सभासद जर कोणत्याही तांत्रिक अडचणीचा सामना करत असतील तर त्यांनी सीडीएसएल हेलपडेक वर संर्षक साधवा वा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर तिन्ही पाठवू टोल प्री क्रमांक १८०० ९०२० ९९० व १८०० २२२ ४४३० व संर्षक साधवा.

सभासद जर कोणत्याही तांत्रिक अडचणीचा सामना करत असतील तर त्यांनी सीडीएसएल हेलपडेक वर संर्षक साधवा वा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर तिन्ही पाठवू टोल प्री क्रमांक ०२२-२३०५८७३८ व ०२२-२३०५८५२१-४३ वर संर्षक साधवा.

जर ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही चौकशी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs) व ई-मतदान मॅनुअल वर उपलब्ध [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) हेलप सेकशन अंतर्गत संर्षक साधवा. सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्झॅक्शन रजिस्ट्रार कार्यालय, दि. ०३ सप्टेंबर, २०२३ ते रानिवार, दि. ०९ सप्टेंबर, २०२३ (दोही दिवस समाविष्ट) दरम्यान कंपनीच्या वार्षिक संस्थापका सभेच्या हेतुकरिता बंद राहील.

जर ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही चौकशी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs) व ई-मतदान मॅनुअल वर उपलब्ध [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) हेलप सेकशन अंतर्गत संर्षक साधवा.

धन्यवाद,  
आगम कॅपिटल लिमिटेडकरिता  
सती/-  
कविता जैन

कंपनी सचिव व अनुत्तलन अधिकारी  
(सभासदपत्र क्र. एसएमएल८३११)

निर्वास : १७.०८.२०२३  
दिक्कान : मुंबई

**PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF**

## Beryl Securities Limited

**CIN: L67120MP1994PCLC008882**  
**REGISTERED OFFICE:** 133, Kanchan Bagh Colony Indore - 452001, Madhya Pradesh, India  
**Tel No.** 0731- 2517677/3961510, **Website:** [www.berylsecurities.com](http://www.berylsecurities.com), **E Mail:** [berylsecurities@gmail.com](mailto:berylsecurities@gmail.com)

**Open offer for acquisition of up to 12,60,922 (Twelve Lakhs Sixty Thousand Nine Hundred & Twenty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of Beryl Securities Limited ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulochana Bajpai (PAC) at an offer price of ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paise Only), with an intention to acquire control of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").**

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Mr. Vineet Bajpai, (Acquirer No. 1) and Mr. Agam Gupta (Acquirer No. 2) and Mr. Sanyam Jain (Acquirer No. 3) and Mrs. Rani Sulochana Bajpai (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Beryl Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company")

This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated May 02, 2023 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratnahak (Marathi) (Maharashtra edition) and Hamara Swaraj (Hindi) (Madhya Pradesh Edition) On May 10, 2023; (c) Draft Letter of Offer dated May 17, 2023 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated August 07, 2023 (LOF).

This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified.

- The Offer Price is being ₹ 13.50/- (Rupees Thirteen Point Fifty Paise Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price.
- The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on August 17, 2023 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. Thursday, August 03, 2023 has been completed through registered post on August 11, 2023 and E-mail on August 10, 2023. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders on as such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.
- Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) is also available on website of SEBI at ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LoF.

The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:

- In case the shares are held in physical form :**  
Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 28) of the LoF.
- In case the shares are held in demat form**  
Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 27) of the LoF.  
Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Adroit Corporate Services Private Limited) at 18-20, Jafarbhoy Industrial Estate, 1<sup>st</sup> Floor, Makawana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai-400059 India. during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 26 of the LoF.
- In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on May 17, 2023. The Final Observations received from SEBI dated August 01, 2023 bearing reference no SEBI/HO/CFD/DCR/RAC-1/P/OW/2023/30818/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation.
- Material updates since the date of the Public Announcement:**  
There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement

As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.

- Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
	Day	Date	Day	Date
Date of Public Announcement	Tuesday	May 2, 2023	Tuesday	May 2, 2023
Date of publishing of Detailed Public Statement	Wednesday	May 10, 2023	Wednesday	May 10, 2023
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday	May 17, 2023	Wednesday	May 17, 2023
Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday	May 31, 2023	Wednesday	May 31, 2023
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer	Wednesday	June 7, 2023	Tuesday	August 01, 2023
Identified Date#	Friday	June 9, 2023	Thursday	August 03, 2023
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Friday	June 16, 2023	Thursday	August 10, 2023
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Thursday	June 22, 2023	Friday	August 18, 2023
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Tuesday	June 20, 2023	Thursday	August 17, 2023
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Tuesday	June 20, 2023	Friday	August 18, 2023
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday	June 23, 2023	Monday	August 21, 2023
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	July 10, 2023	Friday	September 1, 2023
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 24, 2023	Friday	September 15, 2023
Issue of post offer advertisement	Monday	July 17, 2023	Friday	September 8, 2023
Last date for filing of final report with SEBI	Wednesday	July 31, 2023	Monday	September 25, 2023

**#Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders on as such date to whom the Letter of Offer shall be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and Parties to SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.**

- Other Information:**



